

QUIZ
PART-04
अध्याय - 4 | व्यावसायिक सेवाएँ

1. वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य कौन-सा है?

- A. वस्तुएँ बेचना
- B. जमा स्वीकार करना
- C. कर वसूलना
- D. न्याय देना (B)

व्याख्या: बैंक का प्रमुख कार्य जमा स्वीकार करना है, जो उसके ऋण प्रचालन का आधार होता है।

2. बैंक उधार लेते समय क्या करते हैं?

- A. ब्याज लेते हैं
- B. ब्याज देते हैं
- C. वसूली करते हैं
- D. कोई ब्याज नहीं लेते (B)

व्याख्या: बैंक उधार लेने पर ब्याज देते हैं और ऋण देने पर ब्याज लेते हैं।

3. बैंक किस प्रकार के खातों में जमा स्वीकार करते हैं?

- A. चालू खाते
- B. बचत खाते
- C. निश्चित कालीन जमा खाते
- D. उपर्युक्त सभी (D)

व्याख्या: बैंक चालू, बचत और निश्चित अवधि जमा – तीनों प्रकार के खातों में जमा स्वीकार करते हैं।

4. बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य क्या है?

- A. मनोरंजन देना
- B. ऋण देना
- C. विज्ञापन करना
- D. बीमा बेचना (B)

व्याख्या: जमा की गई राशि से बैंक ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं, जो उनका दूसरा मुख्य कार्य है।

5. बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं?

- A. खेती
- B. व्यापार, उद्योग व परिवहन
- C. नृत्य कला
- D. खेल (B)

व्याख्या: बैंक ऋण व्यापार, उद्योग, परिवहन और अन्य व्यावसायिक क्रियाओं के विकास में मदद करते हैं।

6. बैंक में जमा राशि निकालने का सबसे लोकप्रिय साधन कौन-सा है?

- A. पासबुक
- B. चेक
- C. रसीद
- D. बहीखाता (B)

व्याख्या: चेक एक महत्वपूर्ण साख प्रपत्र है और जमा राशि निकालने का सुविधाजनक तरीका है।

7. रेखांकित चेक का क्या अर्थ है?

- A. बैंक काउंटर पर तुरंत नकद मिल जाता है
- B. केवल धारक जिसे चाहे वह भुना सकता है
- C. केवल खाते में जमा कराया जा सकता है
- D. इसे कोई भी भुना सकता है (C)

व्याख्या: रेखांकित (क्रॉस) चेक केवल बैंक खाते में ही जमा कराया जा सकता है, सीधे नकद नहीं मिलता।

8. धन के हस्तांतरण का कार्य बैंक कैसे करता है?

- A. पोस्टर लगाकर
- B. बैंक ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर व मनी ऑर्डर द्वारा
- C. कैशियर से पूछकर
- D. सरकारी आदेश से (B)

व्याख्या: बैंक शाखाओं के माध्यम से ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर आदि द्वारा धन एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं।

9. सहायक सेवाओं में निम्न में से कौन शामिल है?

- A. फिल्म बनाना
- B. बिलों का भुगतान व लॉकर सुविधा
- C. वाहन बनाना
- D. सड़क निर्माण (B)

व्याख्या: सहायक सेवाओं में लॉकर सुविधा, बिलों का भुगतान, अभिभोग सेवाएँ, लाभांश वसूली आदि आते हैं।

10. बैंक किस सेवा के लिए नाममात्र शुल्क लेते हैं?

- A. मनोरंजन सेवा
- B. धन के हस्तांतरण की सेवा
- C. बीमा सेवा
- D. परिवहन सेवा (B)

व्याख्या: ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर आदि के माध्यम से धन के हस्तांतरण पर बैंक केवल नाममात्र का कमीशन लेते हैं।